



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 67-2024/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, APRIL 29, 2024 (VAISAKHA 9, 1946 SAKA)

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 464 / ईपीएस / 2024(6)

दिनांक: 29 अप्रैल, 2024  
9 वैशाख, 1946 (शक)

### अधिसूचना

यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निर्गत और भारत के राजपत्र में 29 अप्रैल, 2024 (सोमवार) को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित राज्यों या संघ राज्य-क्षेत्रों में, इसके स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा की है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें;

2. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा—

(अ) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उक्त निर्वाचन के संबंध में—

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख के रूप में 06 मई, 2024 (सोमवार) को;

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के रूप में 07 मई, 2024 (मंगलवार) को;

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख के रूप में 09 मई, 2024 (गुरुवार) को;

(घ) नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस तारीख के रूप में, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा; और

(ङ) 6 जून, 2024 (गुरुवार) को उस तारीख के रूप में, जिससे पहले ऊपर उल्लिखित सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा;

नियत करता है; और

(आ) उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट समय को ऐसे समय के रूप में निर्धारित करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो उपर्युक्त निर्वाचन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तदनु रूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में, इसके स्तंभ (3) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सम्मुख विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा।

**अनुसूची**  
**संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तिथि और मतदान का समय**  
**चरण-VI**

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र खंड	मतदान की तिथि	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
बिहार	1-वाल्मीकिनगर		
	1-वाल्मीकिनगर वि.स.नि.क्षे.	25.05.2024 (शनिवार)	29 मतदान केंद्रों (सं. 17, 19, 20, 27 से 35, 45, 50, 51, 58, 59, 92 से 96, 99, 106 से 109, 113, 114) के लिए  पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे  शेष 329 मतदान केंद्रों के लिए  पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	2-रामनगर (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	25.05.2024 (शनिवार)	25 मतदान केंद्रों (सं. 1 से 16, 18, 19, 24 से 27, 53, 56, 58) के लिए  पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे  शेष 310 मतदान केंद्रों के लिए  पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	3-नरकटियागंज वि.स.नि.क्षे.	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	4-बगहा वि.स.नि.क्षे.	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	5-लौरिया वि.स.नि.क्षे.	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	9-सिकटा वि.स.नि.क्षेत्र	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	2-पश्चिम चम्पारण	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	3-पूर्वी चम्पारण	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	4-शिवहर	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	16-वैशाली	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	17-गोपालगंज (अ.जा.)	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	18-सिवान	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	19-महराजगंज	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
हरियाणा	1-अम्बाला (अ.जा.)	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	2-कुरुक्षेत्र	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	3-सिरसा (अ.जा.)	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	4-हिसार	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	5-करनाल	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	6-सोनीपत	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे

	7—रोहतक	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	8—भिवानी—महेन्द्रगढ़	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	9—गुड़गांव	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	10—फरीदाबाद	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
झारखंड	6—गिरिडीह	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	7—धनबाद	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	8—राँची	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	9—जमशेदपुर	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
उड़ीसा	3—सम्बलपुर		
	15—कूचिन्दा (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	16—रेंगली (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	17—सम्बलपुर वि.स.नि.क्षे.	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	18—रैराखोल वि.स.नि.क्षे.	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 4.00 बजे
	19—देवगढ़ वि.स.नि.क्षे.	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 5.00 बजे
	62—छेन्दीपाडा (अ.जा.)वि.स.नि.क्षे.	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	63—अठमल्लिक वि.स.नि.क्षे.	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	4—क्योन्झर (अ.ज.जा.)	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	9—धेन्कानल	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	14—कटक	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	17—पुरी	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	18—भुवनेश्वर	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
उत्तर प्रदेश	38—सुल्तानपुर	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	39—प्रतापगढ़	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	51—फूलपुर	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	52—इलाहाबाद	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	55—अम्बेडकरनगर	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	58—श्रावस्ती	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	60—डुमरियागंज	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	61—बस्ती	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	62—संत कबीर नगर	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	68—लालगंज (अ.जा.)	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	69—आज़मगढ़	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	73—जौनपुर	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	74—मछलीशहर (अ.जा.)	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	78—भदोही	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
पश्चिमी बंगाल	30—तामलुक	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	31—कांथी	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे

	32—घाटल	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	33—झाडग्राम (अ.ज.जा.)	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	34—मेदीनिपुर	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	35—पुरुलिया	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	36—बंकुरा	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	37—बिथानुपुर (अ.जा.)	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1—चांदनी चौक	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	2—उत्तर-पूर्व दिल्ली	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	3—पूर्व दिल्ली	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	4—नई दिल्ली	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	5—उत्तर-पश्चिम दिल्ली (अ.जा.)	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	6—पश्चिम दिल्ली	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे
	7—दक्षिण दिल्ली	25.05.2024 (शनिवार)	पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे

आदेश से,

संजीव कुमार प्रसाद  
सचिव  
भारत निर्वाचन आयोग

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
**Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001**

No. 464/EP/2024(6)

**Dated: the 29<sup>th</sup> April, 2024**  
**9 Vaisakha, 1946 (Saka)**

**NOTIFICATION**

**WHEREAS**, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 29<sup>th</sup> April, 2024 (Monday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (2) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in column (1), of the Schedule to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

2. **Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-
- (A) **Appoints**, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule,
- the 06<sup>th</sup> May, 2024 (Monday)**, as the last date for making nominations;
  - the 07<sup>th</sup> May, 2024 (Tuesday)**, as the date for scrutiny of nominations;
  - the 09<sup>th</sup> May, 2024 (Thursday)**, as the last date for withdrawal of candidatures;
  - the date specified in column (3) of the **SCHEDULE** below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule; and
  - the 06<sup>th</sup> June, 2024 (Thursday)**, as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and
- (B) **Fixes the hours** specified in column (4) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (3) thereof, for the above election.

**SCHEDULE****Parliamentary Constituencies, Dates and Hours of Poll****Phase-VI**

<b>State/Union Territory</b>	<b>Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment</b>	<b>Date of Poll</b>	<b>Hours of Poll</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	
<b>BIHAR</b>	<b>1-Valmiki Nagar</b>	25.05.2024 (Saturday)	<u>For 29 Polling Stations</u> (Polling Station Nos.17, 19, 20, 27-35, 45, 50, 51, 58, 59, 92-96, 99, 106-109, 113, 114) 07:00 AM to 04:00 PM <u>For remaining 329 Polling Stations</u> 07:00 AM to 06:00 PM	
	1-Valmiki Nagar AC			
	2-Ramnagar (SC) AC			<u>For 25 Polling Stations</u> (Polling Station Nos.1-16, 18, 19, 24-27, 53, 56, 58) 07:00 AM to 04:00 PM <u>For remaining 310 Polling Stations</u> 07:00 AM to 06:00 PM
	3-Narkatiaganj AC			07:00 AM to 06:00 PM
	4-Bagaha AC			07:00 AM to 06:00 PM
	5-Lauriya AC			07:00 AM to 06:00 PM
	9-Sikta AC			07:00 AM to 06:00 PM
	<b>2-Paschim Champaran</b>			07:00 AM to 06:00 PM
	<b>3-Purvi Champaran</b>			07:00 AM to 06:00 PM
	<b>4-Sheohar</b>			07:00 AM to 06:00 PM
	<b>16-Vaishali</b>			07:00 AM to 06:00 PM
	<b>17-Gopalganj (SC)</b>			07:00 AM to 06:00 PM
	<b>18-Siwan</b>			07:00 AM to 06:00 PM
	<b>19-Maharajganj</b>			07:00 AM to 06:00 PM
<b>HARYANA</b>	<b>1-Ambala (SC)</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	<b>2-Kurukshetra</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	<b>3-Sirsa (SC)</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	<b>4-Hisar</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	<b>5-Karnal</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	<b>6-Sonipat</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM	

	<b>7-Rohtak</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>8-Bhiwani-Mahendragarh</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>9-Gurgaon</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>10-Faridabad</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>JHARKHAND</b>	<b>6-Giridih</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>7-Dhanbad</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>8-Ranchi</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 05:00 PM
	<b>9-Jamshedpur</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 05:00 PM
<b>ODISHA</b>	<b>3-Sambalpur</b>		
	15- Kuchinda (ST) AC	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 04:00 PM
	16- Rengali (SC) AC	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	17- Sambalpur AC	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	18- Rairakhol AC	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 04:00 PM
	19- Deogarh AC	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 05:00 PM
	62- Chhendipada (SC) AC	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	63- Athamallik AC	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>4-Keonjhar (ST)</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>9-Dhenkanal</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>14-Cuttack</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>17-Puri</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>18-Bhubaneswar</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>UTTAR PRADESH</b>	<b>38-Sultanpur</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>39-Pratapgarh</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>51-Phulpur</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>52-Allahabad</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>55-Ambedkar Nagar</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>58-Shrawasti</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>60-Domariyaganj</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>61-Basti</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>62-Sant Kabir Nagar</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>68-Lalganj (SC)</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>69-Azamgarh</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>73-Jaunpur</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>74-Machhlishahr (SC)</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>78-Bhadohi</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM	

<b>WEST BENGAL</b>	<b>30-Tamluk</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>31-Kanthi</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>32-Ghatal</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>33-Jhargram (ST)</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>34-Medinipur</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>35-Purulia</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>36-Bankura</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>37-Bishnupur (SC)</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
<b>NCT OF DELHI</b>	<b>1-Chandni Chowk</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>2-North East Delhi</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>3-East Delhi</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>4-New Delhi</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>5-North West Delhi (SC)</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>6-West Delhi</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM
	<b>7-South Delhi</b>	25.05.2024 (Saturday)	07:00 AM to 06:00 PM

By order,

**SANJEEV KUMAR PRASAD**  
SECRETARY TO THE  
ELECTION COMMISSION OF INDIA